



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 166-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018 (ASVINA 6, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 सितम्बर 2018

संख्या 8/22/2018-क-1.—हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 (2016 का 14), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	लाजपत नगर-1	90 // 23मीन,24,25मीन,101 // 3मीन,4, 5 मीन, 6 मीन, 7, 8मीन,13,14,15,16,17, 18, 24, 25 102 // 11 / 1,20मीन,21मीन 128 // 1,2मीन,9मीन,10मीन 129 // 4मीन,5,6मीन,7,14मीन,15मीन	23.02	नगरपरिषद, भिवानी	भिवानी
2.	लाजपत नगर-2	220 // 10मीन,11मीन,20,21मीन,22मीन, 221 // 16, 17 / 2 227 // 1,2	5.84		
3.	गणपति नगर	137 // 19मीन,22मीन 165 // 1मीन,2,3मीन,8मीन,9,12मीन,26	4.16		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	लक्ष्मी नगर एक्सटेंसन-ए	138 / / 21मीन, 139 / / 16मीन,17मीन,18मीन,22मीन,23मीन, 24,25, 182 / / 2मीन,3,4,5,6,7मीन,8मीन,9मीन, 10मीन, 11मीन,12मीन,13,14,15,16,17मीन,18मीन, 24मीन,25 183 / / 1, 2मीन, 3मीन, 9मीन, 10,11, 20,21मीन, 192 / 1मीन, 193 / / 5मीन	23.58		
5.	लक्ष्मी नगर एक्सटेंसन-बी	183 / / (6मीन,15मीन,16मीन,17मीन,24मीन, 25मीन) 184 / / 21मीन, 192 / / 4मीन,5मीन,6मीन,7मीन,8मीन	6.25		
6.	लक्ष्मी नगर एक्सटेंसन-सी	184 / / (11मीन,12मीन,19मीन,20मीन,21मीन ,22मीन, 23मीन,24मीन,25, 185 / / 21मीन 190 / / 1मीन,10मीन191 / / 2मीन,3मीन, 4मीन, 5मीन, 8मीन	7.65		
7.	विद्यानगर एक्सटेंसन	149 / / 17,18मीन,19मीन,20मीन,21मीन,22, 23,24,25, 150 / / 21 151 / / 1,2,9 152 / / 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 115 / / 5,6मीन,7मीन, 116 / / 2,3,4,6मीन7,8,9,10मीन,12मीन, 13मीन, 14मीन	23.1		
8.	बैंक कालोनी एक्सटेंसन-1	188 / / 25मीन, 205 / / 1मीन,2मीन,3मीन,4,5,6,7,8,10मीन 202 / / 6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2 1,22, 23,24,25 217 / / 1,2,3,4,5,7मीन,8,9,10मीन,11मीन,12 ,13, 14मीन,17मीन18,19,20,22,23,24मीन	40.4		
9.	बैंक कालोनी एक्सटेंसन-2	226 / / 3मीन,4मीन,7मीन,8मीन,13मीन, 18मीन,23 245 / / 3मीन,8मीन	7.47		
10.	बैंक कालोनी एक्सटेंसन-3	245 / / 8मीन,9मीन,11मीन,12मीन,13मीन, 18,19 मीन, 20	3.99		
	शून्य			नगरपरिषद, चरखीदादरी	
11.	सूर्य नगर इनक्लेव एक्सटेंसन	340 / / 2मीन,3,4मीन,7,8,9मीन	4.42	नगरपरिषद, फतेहाबाद	फतेहाबाद

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	कीर्तिनगर	218 // 21मीन, 219 // 25मीन, 232 // 5मीन, 6मीन, 233 // 1मीन, 2मीन, 9, 10	5.39		
13.	बालाजी कालोनी	218 // 8मीन, 13मीन, 14मीन	1.0		
14.	गिलावाली ढाणी एक्सटेंसन	289 // 25मीन, 290 // 21मीन, 306 // 1मीन, 10मीन 307 // 5मीन	2.5	नगरपरिषद, टोहाना	
15.	तिलक कॉटन मिल एक्सटेंसन	231 // 16मीन, 17मीन	1.15		
16.	रायसेना भाग-2	152 // (6/1, 6/2, 14, 17/1, 17/2मीन) 15, 16/1, 16/2 153 // (11, 20, 22मीन)	2.87	नगरपरिषद, सोहना	गुरुग्राम
17.	सुशील नगर भाग-3	132 // (22/1/1/1, 22/1/1/2, 22/1/2मीन)	0.77		
18.	शिव कालोनी वार्ड संख्या 5 भाग-1	219 // (24/1, 24/4, 24/5, 24/7/1, 24/7/2, 24/7/3, 25/1मीन), 25/4, 25/5, 25/8, 25/10, 25/11, 25/15/1, 25/15/2, 220 // (21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5 मीन, 22मीन) 230 // (4/1, 5/2मीन)	2.57		
19.	नाहर कालोनी	230 // , 246 // (16, 17, 18/2, 24/3, 25मीन), 24/1, 24/2, 26, 247 // (11, 20, 21मीन), 257 // (3/1, 4, 5मीन)	3.81		
20.	राम सिंह कालोनी भाग-2	534 // 15मीन, 535 // 11मीन, 18मीन, 19मीन, 20मीन, 21मीन, 22, 23मीन, 543 // 1मीन, 2	5.66	नगरपरिषद, हांसी	हिसार
21.	छोटू राम नगर 1 एक्सटेंसन भाग-1	7 // 14/1(पी), 14/2(पी), 15(पी), 16/1(पी), 17/1(पी), 17/2(पी)	1.39	नगरपरिषद, बहादुरगढ़	झज्जर
22.	छोटू रामनगर 2 एक्सटेंसन भाग-1	13 // 11/3(पी), 12/2(पी), 12/2/2(पी), 13(पी)	0.66		
	छोटू रामनगर 2 एक्सटेंसन भाग-2	15(पी), 16/1(पी), 19, 22(पी), 20/ (पी), 15 // 9(पी), 12(पी), 13(पी),	1.14		
	छोटू रामनगर 2 एक्सटेंसन भाग-3	60 // 4, 5, 6, 7, 8(पी), 9(पी), 13(पी),	5.36		
23.	सुभाष नगरन्यू एक्सटेंसन	2672(पी), 2692(पी), 2694(पी), 2695(पी), 2696(पी), 2697(पी), 2698(पी), 2699(पी)	5.23		
24.	जे.ई. कालोनी	15(पी), 16(पी), 22(पी),	3.85		
25.	बैंक कालोनी 2 एक्सटेंसन भाग-1	972, 974(पी), 970(पी), 969	6.79		
	बैंक कालोनी 2 एक्सटेंसन भाग-2	968, 963(पी), 964, 965, 993	0.92		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	शक्तिनगर एक्टैंसन 2	534, 574(पी)	3.40		
27.	मामनविहार एक्टैंसन	278(पी), 279(पी)	0.76		
28.	कर्मचारी कालोनी (गोहाना-रोहतक रोड़ बाईपास)	185 / / 21मीन, 186 / / 21, 22,23मीन,24मीन,25मीन,221 / / 1,2,3,5मीन, 8मीन, 9, 10,11,12,19मीन,20मीन,222 / / 1मीन	11.87	नगरपरिषद, जीन्द	जीन्द
29.	भारत नगर-1	39 / / 9मीन,10मीन,11मीन,12मीन	2.35		
30.	भारत नगर-2	37 / / 22मीन,23मीन,38 / / 3मीन	0.41		
31.	धागा मिल कालोनी	36 / / 11मीन,13मीन,18मीन,19मीन,20मीन,37 / / 15मीन,16मीन	1.99		
32.	जोगिन्द्रनगर एक्टैंसन-1	25 / / 15 / 2,26 / / 10,11,165 / / 11मीन, 12मीन,13मीन,14मीन,15मीन,16मीन,17, 18मीन,19मीन,20मीन,24मीन,25मीन	8.27		
33.	जोगिन्द्रनगर एक्टैंसन-2	164 / / 1मीन,2मीन,8मीन,9मीन,12मीन, 13मीन,165 / / 4मीन,5मीन,7मीन	2.92		
34.	श्योराण कालोनी	193 / / 21,22,23मीन,24मीन,25मीन,28मीन, 194 / / 25मीन,214 / / 2मीन,3मीन,4मीन, 5मीन	5.74		
35.	विजय नगर एक्टैंसन	112 / / 11मीन,20मीन,21मीन,113 / / 14मीन,16,17मीन,24मीन,25,145 / / 4मीन,5, 6मीन,7मीन,15मीन,16, 25मीन,146 / / 1मीन,2मीन,3मीन,7मीन,8मीन,9, 10मीन, 11मीन,12मीन,13मीन,14मीन,16मीन,17मीन, 18मीन,19मीन,20मीन,21मीन,22मीन,23मीन, 24मीन,25मीन	20.68		
36.	न्यूकृष्णा कालोनी	225 / / 18मीन,19मीन,22मीन,23,254 / / 2मीन,3मीन,4,5,6,7,8,9मीन,12मीन,13मीन, 14मीन,15,16,17मीन,255 / / 1,2,3,4मीन, 7मीन,18,19,20,21मीन,22,23मीन,259 / / 1मीन,2,3मीन,9मीन,10मीन,11मीन,12मीन	30.04		
37.	प्रीतम बाग	295 / / 8मीन,9,12,13,14,15,16,17,18,19,23, 24,25मीन, 296 / / 11,12,19,21,22,23मीन, 305 / / 1,2,3,4,5,6मीन,7मीन,8मीन,9मीन	25.99	नगरपरिषद, नरवाना	
38.	राम नगर एक्टैंसन	227 / / 11मीन,12मीन,19मीन,20मीन,21मीन, 22,23,24,25, 255 / / 2,3,4,5,6,7,8,9,12मीन,13मीन,14मीन, 15,16,17मीन,18मीन,23मीन,24मीन,25, 1649मीन,265 / / 3मीन,4मीन,7	25.60		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
39.	धर्म सिंह कालोनी एक्सटेंसन	227 // 3मीन,4,5,6,7,8मीन,9मीन,15,16,17	8.42		
40.	भगत सिंह कालोनी एक्सटेंसन-1	306 // 21मीन,22मीन,332 // 5मीन,6मीन,14मीन,15,16मीन,17मीन,24मीन,25मीन,333 // 1मीन,2मीन,11मीन	6.68		
41.	भगत सिंह कालोनी एक्सटेंसन-2	1681मीन,1682मीन,1689 / 1मीन	6.80		
42.	भगत सिंह कालोनी एक्सटेंसन-3	333 // 3मीन,4मीन,5मीन,334 // 1	2.46		
43.	भगत सिंह कालोनी एक्सटेंसन-4	333 // 6मीन,7मीन,8मीन,13मीन,14,15,16,17,25मीन,334 // 10मीन,11मीन,20मीन,21मीन	10.27		
44.	हरिनगर एक्सटेंसन	304 // 21मीन,22,23मीन,334 // 5मीन,6,7मीन,12मीन,13मीन,14,15,16मीन,17,18,19,22मीन,23मीन,335 // 1,2,3मीन,4मीन,5मीन,7मीन,8,10मीन,11मीन,12मीन,13मीन,14मीन,15मीन,336 // 10मीन,344 / 2मीन	18.59		
45.	गान्धीनगर-ए	1823मीन,1824,1825	3.98		
46.	गान्धीनगर-बी	1815मीन	2.65		
47.	बस स्टैण्ड के पीछे कालोनी, भगत सिंह कालोनी का भाग	पट्टीकायस्थसेठ:- 164 // (17मीन,18मीन,19मीन) पट्टीगादड़:- 2 // (16मीन,25), 3 // (19मीन,20मीन,21मीन,22मीन,23,24) 7 // (2मीन,3,4,6मीन,7मीन,8मीन,9मीन,10,11,12मीन, 14मीन,15मीन,17मीन,20मीन) 8 // (5,6,15,16मीन)	21.76	नगरपरिषद, कैथल	कैथल
48.	डिफेंस का लोनी, बस स्टैण्ड के पीछे	पट्टीगादड़:-6 // (21मीन), 7 // (16मीन,21मीन,22मीन,23,24,25) 17 // (3मीन,4,5,6,7मीन,8मीन,15मीन) 18 // (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11मीन,12मीन,13,14,15, 16मीन,17मीन,18मीन) 19 // (1मीन,10मीन,11मीन,20,21मीन)	30.70		
49.	प्योदा रोड के दोनों तरफ कालोनी	भाग-1, पट्टीचौधरी:- 27 // (9मीन,10मीन,11मीन,12मीन,13मीन) पट्टीगादड़:- 86 // (6मीन,7मीन,8मीन,9मीन,13मीन,14,15,16,17, 18मीन,23मीन,24,25) 87 // (9मीन,10मीन,11,19मीन,20) 93 // (9मीन,10,11,12,13मीन,17मीन,18,19	46.60		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		मीन,20मीन) 94 / / (4मीन,5,6,7मीन,15,16मीन) भाग-2, पट्टीगादड़:- 91 / / (21मीन) 92 / / (19मीन,21मीन,22,23,24,25) 96 / / (5मीन,6मीन,7मीन,13मीन,14मीन,15,16मीन,17, 18मीन,23मीन,24मीन,25मीन) 97 / / (1,2,8,9,10,11,12मीन,13मीन) 101 / / (5मीन)			
50.	नये बाई पास के बाहर कालोनी, प्योदारोड-कैथल	भाग-1, पट्टीगादड़:- 96 / / (25मीन) 97 / / (19मीन,20मीन,21मीन,22मीन) 100 / / (1,2,7मीन,8मीन,9मीन,10मीन,12मीन, 13मीन,14मीन) 101 / / (5मीन,6मीन) भाग-2, पट्टीगादड़:- 104 / / (4मीन,6मीन,7मीन)	7.90		
51.	बालाजी तथा हरीनगर भाग-1, कुतुबपुर रोड	पट्टीचौधरी:- भाग-ए 7 / / (14मीन,17मीन,18मीन,19मीन,20मीन,21मीन,22मीन,23मीन) 12 / / (1मीन,2मीन) भाग-बी 8 / / (24मीन,25मीन) 11 / / (2मीन,3मीन,4मीन,5मीन,6मीन,7,8,9मीन,12मीन, 13मीन,14मीन,15मीन)	10.52		
52.	बालाजी तथा हरीनगर भाग-2, कुतुबपुररोड	पट्टीचौधरी:- 10 / / (15मीन,16मीन,18मीन,23मीन,24मीन, 25मीन) 19 / / (2मीन,3मीन,4,5मीन,6मीन,7मीन,8,9मीन)	7.33		
53.	कर्ण विहार कालोनी, जीन्दरोड कैथल	पट्टीचौधरी:- 26 / / (13मीन,14मीन,17मीन,18मीन,22मीन, 23मीन, 24मीन,25मीन) 29 / / (3मीन,4मीन,5मीन,8मीन,9मीन)	5.16		
54.	कम्बोज कालोनी	पट्टीकायस्थसेठ:- 98 / / (6मीन,15मीन,16मीन)	2.26		
55.	दयानन्द कालोनी	7 / / 24मीन,25मीन,17 / / 2 / 2 / 1मीन,2 / 2 / 2मीन,3 / 3 / 1मीन,3 / 3 / 2मीन,3 / 3मीन,4 / 1,4 / 2,4 / 3मीन, 4 / 4मीन,5मीन,8मीन,9 / 2मीन,26मीन	4.44	नगरपरिषद, थानेसर	कुरुक्षेत्र

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
56.	कंग कालोनी भाग-1	33 // 24मीन,25मीन,32 // 21मीन 51 // 4 / 1मीन,4 / 2मीन,5मीन 52 // 1 / 2मीन	3.98		
57.	नगर योजना, स्कीम-7ए भाग-1	222 / 53मीन,222 / 60मीन, 222 / 62मीन	2.80		
58.	नगर योजना, स्कीम-7ए भाग-2	22 // 11 / 1मीन,26,12मीन,19मीन,22मीन,2 1 / 2मीन, 21 / 1मीन,20 / 2मीन,20 / 1मीन,23 // 15मीन,16 / 1मीन,25 / 1मीन,25 / 2मीन	5.80		
59.	महाविद्यालय कालोनी	105 // 4मीन,5मीन,6,7मीन,14मीन,15, 16मीन, 104 // 1मीन,10 / 1मीन,10 / 2मीन,11 / 1मीन,11 / 2मीन, 20मीन	4.60		
60.	शिव कालोनी	4 // 6मीन,7 / 1मीन,7 / 2मीन,14 / 2मीन, 14 / 3मीन,15, 16मीन,17 / 1मीन, 3 // 10मीन,11मीन,20मीन,21 / 1मीन	4.00		
61.	कर्ण कालोनी	54 // 3मीन,26 / 2,55 / 2मीन,3मीन,4मीन, 7मीन, 8मीन, 9मीन	5.96		
62.	ईन्दर कालोनी	211 / 19मीन,211 // 32मीन,211 // 33मीन, 140मीन, 211 / 34मीन	3.00		
63.	गांधीनगर कालोनी	50 // 15मीन,17 / 1मीन,24मीन, 51 // 5मीन,6,7 52 / 1मीन,9मीन,10,28,127मीन,128 / 1मीन, 128 / 2मीन, 75मीन,90मीन	21.48		
64.	दुर्गानगर	15 // 2मीन,3मीन,7मीन,8मीन,9मीन,12 / 1मीन,12 / 2मीन, 13 / 1मीन,13 / 2मीन,14मीन,15मीन,16 / 1मीन,16 / 2,17, 18 / 1,18 / 2,19,20 / 1मीन,21 / 2मीन,22, 23 / 1मीन, 23 / 2,23 / 3,24,25 / 1, 25 / 2 / 1मीन 27 // 1 / 2मीन,2मीन,3 / 1 / 2मीन,3 / 1 / 1मीन, 3 / 2मीन, 4मीन,5 / 1मीन,5 / 2 / 1मीन,7 / 1मीन	16.00		
65.	दीदारनगर एक्सटेंसन	24 // 14मीन,16मीन,17मीन,18,22मीन,23,2 4,25 25 // 20मीन,21 / 1मीन,2122मीन, 33 // 1मीन,34 // 2मीन,3मीन,4मीन,5मीन, 9मीन	9.80		
66.	विवेकानन्द कालोनी	22 // 18 / 1मीन,11मीन,12मीन,13मीन, 18मीन,19 / 1मीन, 19 / 2मीन,20मीन,21मीन,26मीन,23//16मीन,	10.66		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		17मीन,22मीन, 23मीन,24मीन,25 33 / / 2मीन,4मीन,5मीन,7मीन,8मीन 34 / / 1मीन,10मीन			
67.	किशन पुरा कालोनी	38 / / 19मीन,20मीन,21मीन,22मीन	2.54		
68.	रामकरणदास एक्सटेंसन	3288मीन, 3279मीन, 3292मीन, 3280मीन, 3277मीन, 3272मीन, 3312मीन, 3217मीन, 3504मीन, 3270मीन, 3269मीन, 3268मीन, 3267मीन, 3302मीन, 3596मीन, 3252मीन, 3261मीन, 3264मीन, 3266मीन, 3275मीन, 3254मीन, 3265मीन, 3577मीन, 3578मीन,3579मीन, 3531मीन,3591मीन	14.3	नगरपरिषद, नारनौल	नारनौल
69.	महात्मा ज्योतिबाफुले नगर	3939मीन,3940मीन,3941मीन,3942मीन, 3943मीन,3944मीन,3963मीन,4100मीन, 4101मीन,4102मीन	14.3		
70.	आदर्शनगर एक्सटेंसन	2731मीन,2724मीन,2733मीन,2734मीन, 2795मीन, 2794मीन,2792मीन,2793मीन,2735मीन	4.22		
71.	अग्रसैन कालोनी एक्सटेंसन	2786मीन,2781मीन,2773मीन,2772मीन, 2774मीन, 2779मीन,2777मीन,2776मीन,2818मीन, 2817मीन	5.05		
72.	एक्सटेंसन ओमकालोनी भाग-1	153 / / (1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14 / 1,1 8,19,20,21,22,23 / 1मीन) 154 / / (3,5मीन,8,14 / 1मीन,14 / 2मीन, 15मीन,1 7, 24),6मीन,7मीन 167 / / (4,6मीन,7,14,15,16मीन) 168 / / (11मीन,20मीन)	28.1	नगरपरिषद, होडल	पलवल
73.	एक्सटेंसन पटवारी कालोनी	155 / / (3मीन,4मीन,7,9मीन,14मीन,17,8मीन , 23मीन, 24मीन	5.6		
74.	बिजली बोर्ड कालोनी	167 / / (734मीन,735मीन),189 / / (20मीन, 726मीन),190 / / (485,486,724 से 726,729,733,737,738,744 से 747),748मीन,753,752	10.4		
75.	एक्सटेंसन पाण्डवां कालोनी	287 / / (17,18मीन,24मीन)	2.3		
76.	मेघपुर	राजस्वसम्पदामेघपुर 6 / / 16मीन,23मीन,25मीन, 7 / / 21,22,23मीन 10 / / 1मीन,2,3मीन,4मीन,7मीन,8,9मीन, 13मीन	7.30	नगरपरिषद, पलवल	
77.	फिरोजपुर भाग-ए तथा बी	राजस्व फिरोजपुर 37//3,7 / 1,8,9 / 1,38 / / 15,16 / 1,16 / 2,40 / / 19,47 / / 5 / 8,132,135 / 1,136,	भाग-ए- 19.46 भाग-बी-		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		137,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154, राजस्वअगवानपुर 16 / 26 / 1,6 / 2,15,15 / / 10,11 / 2,19,20 / 1, 20 / 2,40 / / 10 / 2,11,12 / 1,12 / 1 / 1,19,20, 45 / / 1 / 1,10 / 1,20 / 1,191,192,193,195, 196, 197,198,200, 201,202,203,204, 205, 206,207,208,209,211,212,214 / 1,215,216, 218, 219,221,223,224,225,228,229,230,231, 232, 234,235,236,237,238,239	11.56 कुल-31.02		
78.	विजय नगर	झांझणवास हदबस्त न. 122 6 / / 11,(18मीन),19,(20,21मीन),22,23मीन 7 / / 2(3,4,6मीन),7,8,9,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,(24,25मीन),8 / / 16,(17, 18मीन),25,9 / / 5 10 / / 1,2,3 (4,5मीन),6,7,8,14,15 11 / / (2,8,9मीन),10,11,12(13,18मीन),19,20,22 (23मीन) पिवेरा 1 / / 24मीन, 2 / / 21,22 3 / / 1,(9,10,11,12,13,16,18,19,20मीन)21, 22,23,24,25 4 / / (4,5,6,7मीन),14,(15,16मीन),17,24,25 8 / / 5,6(7,8,14मीन),15,16,25 9 / / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11मीन,12,13,14,15,16,17,18,19मीन,21,23मीन,24,25 10 / / 1,2,3,(4,7मीन),9,10,11मीन,12,13मीन 16,17,18,19,20,21(22,23,24मीन) 11 / 20मीन 12 / / 1 13 / / 3,4मीन 14 / / 1,2,3,4,(5,8,9मीन), 15 / / 5मीन	120.09	नगरपरिषद, रेवाड़ी	रेवाड़ी
79.	उत्तमविहार फेस-2ए	148 / / (19,20मीन),21,22,23मीन 154 / / 4मीन,5,6,(7,14मीन),15,16,17मीन,24,25 173 / / 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22	21.68		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	उत्तम विहार फेस-2बी	150 / / (4,5,6मीन),7,(8,13मीन),14,(15,16मीन), 17,18मीन,151 / / 10मीन,20मीन	7.35		
80.	बुद्ध विहार	67 / / (16,25मीन) 68 / / (19,20मीन),21,(22मीन) 76 / / 1,2,(3,8,9मीन),10,11,(12मीन,19,20मीन) 77 / / 15,16, (25मीन)	11.44		
81.	शिव नगर फेज-2बी	111 / / (9,12,13,16,17मीन)18,(19,22,23,24,25मीन) 112 / / (20मीन) 117 / / (1मीन),2,(3,9मीन) 118 / / (1,2,3,4,5,7,9,10,13,14मीन) 119 / / (5,6,7मीन)	15.88		
82.	विकास नगर	160 / / (16मीन) 170 / / (16मीन,17,18,19,20, (21मीन)22,23,(24,25मीन) 177 / / (2मीन),3,(4,5,7,8मीन)	11.45		
83.	पूर्णनगर	155 / / (11मीन),20,21 156 / / (15,16,17,18,23मीन),24,25 169 / / (7,14,15मीन) 170 / / (3मीन),4,5,6, 7,(8,9मीन)	24.67		
84.	शांतिनगर-ए	104 / / (4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16, 19मीन) 105 / / (1,2,8मीन),9,10,11,12,13,(14मीन, 16मीन,18मीन),19,20,21,22,23,24,25, 106 / / 21,22मीन,23मीन	26.88		
85.	लक्ष्मी नगर	29 / / 22,23,24,25मीन 30 / / 21मीन 37 / / 10मीन,11,20,26 38 / / 1,2,3,4(5,6,7,8मीन),10,(11,13, 14मीन),15, (16,17,18,20,25मीन) 39 / / 1मीन,2,3,4,(5,6,7,8,9,10,11,15,16, 20मीन) 40 / / 4मीन,5,(6,7,15मीन)	29.79		
86.	नया आदर्श नगर	186 / / 25	0.18		
87.	ठठेरा कालोनी-बी	117 / / 16,17,18,19,(20,22मीन),23,24	5.97		
	ठठेरा कालोनी-डी	110 / / (16,17मीन) 111 / / (12मीन),19,(20मीन)	3.1		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
88.	राव चिरंजी लाल कालोनी	10 // 16 11 // (6,7मीन),8,(9,11मीन),12(13,14,15मीन) (16,17मीन),18,19, (20,22मीन),23,24मीन 18 // 3,8,9मीन 133(4,67,11,21,22,23,मीन) 137 // (5,6मीन) 138 // 1,2,9,10मीन	17.64		
89.	देव नगर	32 // 1मीन,2,3मीन,8मीन,9,10मीन,11मीन	3.03		
90.	यादव नगर फेस-2ए	56 // (15,16,24,25मीन)57 // (11मीन),20,21, 87 // 1,2,9,10,11,12,19,20,21 87 // 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22,23 88 // 4मीन,5,6,(7,14,15,16मीन),24,25 3 // (18,22मीन),23,24	23.92		
	यादव नगर फेस-2बी	89 // (10,11,14,17,18,19,23,24मीन) 90 // (6,15मीन)	5.22		
	यादव नगर फेस-2सी	96 // 25 131 // 1मीन,2मीन,10मीन 132 // 5,6	2.97		
91.	कबीर नगर कालोनी	शहरी क्रमांक 51,188,474 / 1,474 / 2,474 / 1 / 3,474 / 1 / 5 475 / 1, 475 / 3 / 1 / 4,475 / 3 / 1 / 5,475 / 3 / 1 / 6, 476 / 1,477, 480	33.91	नगरपरिषद, मण्डी डबवाली	सिरसा
92.	पटेल नगर	शहरी क्रमांक 1952,1960,1960 / 1,1961 / 2,1978मीन,1979,1980, 1983मीन,1984 / 2,1922,1995,1996, 1997मीन,1998मीन,1999,2000,2002 / 2,2002 / 3,2003 / 3, 2005 / 1, 2006 / 2,2006 / 3	34.67		
93.	बबा अम्बेडकर नगर	शहरी क्रमांक 620,621,622,623,625,627,628,629,630,631, 632,634,635,636,639,640,641,642,643,644, 690,691,692 / 3,693,694,699 / 2,699 / 3	36.18		
94.	शिव नगर कालोनी	60 // 16मीन,23मीन,24मीन,25मीन,61 // 21मीन,75 // 1मीन,2मीन,9मीन,11मीन, 12मीन,76 // 3मीन,4मीन,5मीन,6मीन,7मीन, 8मीन,13मीन,14मीन,15मीन,16मीन,17मीन, 18मीन,23मीन,24मीन,25मीन,81 // 3,4मीन, 5मीन,6मीन,7मीन,8मीन,82 // 1मीन,2मीन, 9मीन,10मीन,11मीन,12मीन,19मीन	23.85		

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	*खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	परिषद का नाम	जिले का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
95.	विवेकानन्द कालोनी (1)	शहरी क्रमांक 2028, 2033/2, 2033/3, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2052, 2053/1, 2053/2	20.09		
	विवेकानन्द कालोनी (2)	2055/1,2055/2,2055/1,2055/2,2055/3,2057,2070,2071,2071/1,2071/2/1,2071/2/2,2074,2075	17.68		
96.	पीर बस्ती और सरस्वती कालोनी	15// (1मीन,2मीन,3मीन,4,5मीन,6मीन,7मीन,8मीन,9मीन,10मीन,11,12,13,14,15मीन,16मीन,17,18,19मीन,20मीन,22मीन,23मीन,24,25मीन) 16// 5मीन,6मीन,7मीन,14मीन,15मीन,16मीन)	19.5	नगर परिषद, सिरसा	
97.	सुख सागर	34// 1,2,9,10,11,12,20,21मीन, 35// 5,6,7,8,11 से 20, 22 से 25 मीन	17.97		
98.	एडीजे फ्रैंड कालोनी	94// 6, 7,14,15,16,17,18 (सड़क भाग),23,24,25 मीन 95// 7,8,9,10,11,12,13,14,17(सड़क भाग),18,19,20,21,22,23मीन	10.96		
99.	एडीजे शांतिनगर	57// (1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15मीन) 7,8,9, 58// 5 मीन 54// 25 मीन	9.79		
100.	एडीजे परमार्थ कालोनी	78// 4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18 मीन, 79// 10, 11,20 मीन	5.68		
	शून्य			नगर परिषद, गोहाना	सोनीपत

* उपरोक्त क्षेत्र/कालोनी की परिसीमाएं सम्बन्धित नगरपालिकाओं, द्वारा प्रस्तुत की गई अनुमोदित ले आउट योजना में निर्दिष्ट हैं और सम्बद्ध मण्डल आयुक्तों द्वारा विधिवत सिफारिश की गई है।

आनन्द एम० शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 28th September, 2018

No. 8/22/2018-C-I.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 (14 of 2016), the Governor of Haryana hereby declares the following areas as specified in the Schedule given below to be the civic amenities and infrastructure deficient areas, namely:-

SCHEDULE

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
1.	Lajpat Nagar-1	90//23min, 24, 25min, 101//3min, 4, 5 min, 6 min, 7, 8min, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 102//11/1, 20 min, 21min 128//1, 2 min 9 min, 10 min 129//4 min, 5, 6 min, 7, 14 min, 15min	23.02	Municipal Council Bhiwani	
2.	Lajpat Nagar-2	220//10 min, 11 min, 20, 21 min, 22 min, 221//16, 17/2 227//1, 2	5.84		
3.	Ganpati Nagar	137//19 min, 22 min 165//1 min, 2, 3 min, 8 min, 9, 12min, 26	4.16		
4.	Laxami Nagar Extension-A	138//21 min, 139//16 min, 17 min, 18 min, 22 min, 23 min, 24, 25, 182//2 min, 3, 4, 5, 6, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11min 12 min, 13, 14, 15, 16, 17 min, 18 min, 24 min, 25 183//1, 2 min, 3 min, 9 min, 10, 11, 20, 21 min, 192/1 min, 193//5 min	23.58		
5.	Laxami Nagar Extension-B	183//6 min, 15 min, 16 min, 17 min, 24 min, 25 min 184//21 min, 192//4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min	6.25		
6.	Laxami Nagar Extension-C	184//11 min, 12 min, 19 min, 20 min, 21 min, 22 min, 23 min, 24 min, 25, 185//21 min 190//1 min, 10 min 191//2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 8 min	7.65		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
7.	Vidhya Nagar Extension	149//17, 18 min, 19 min, 20 min, 21 min, 22, 23, 24, 25, 150//21 151//1, 2, 9 152//1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 115//5, 6 min, 7 min, 116//2, 3, 4, 6 min, 7, 8, 9 (10 min, 12 min, 13 min, 14 min	23.1		
8.	Bank Colony Extension-1	188//25 min, 205//1 min, 2 min, 3 min, 4, 5, 6, 7, 8, 10 min, 202//6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 217//1, 2, 3, 4, 7 min, 8, 9, 10 min, 11 min, 12, 13, 14 min, 17 min, 18, 19, 20, 22, 23, 24 min	40.4		
9.	Bank Colony Extension-2	226//3 min, 4 min, 7 min, 8 min, 13 min, 18 min, 23 245//3 min, 8 min	7.47		
10.	Bank Colony Extension-3	245//8 min, 9 min, 11 min, 12 min, 13 min, 18, 19 min, 20	3.99		
	Nil			Municipal Council Charkhi Dadri	
11.	Surya Nagar Enclave Extension	340//2 min, 3, 4 min, 7, 8, 9 min	4.42	Municipal Council Fatehabad	Fatehabad
12.	Kirti Nagar	218//21 min, 219//25 min, 232//5min, 6 min, 233//1 min, 2 min, 9, 10	5.39		
13.	Balaji Colony	218//8 min, 13 min, 14 min	1.0		
14.	Gillawali Dhani Extension	289//25 min, 290//21 min, 306//1min, 10 min, 307//5 min	2.5	Municipal Council Tohana	
15.	Tilak Cotton Mill Extension	231//16 min, 17 min	1.15		
16.	Raisena Part-II	152// (6/1, 6/2, 14, 17/1, 17/2 min), 15, 16/1, 16/2 153// (11, 20, 22 min)	2.87	Municipal Council Sohna	Gurgaon
17.	Sushil Nagar Part-III	132// (22/1/1/1, 22/1/1/2, 22/1/2 min)	0.77		
18.	Shiv Colony Ward No. 5 Part-I	219// (24/1, 24/4, 24/5, 24/7/1, 24/7/2, 24/7/3, 25/1 min), 25/4, 25/5, 25/8, 25/10, 25/11, 25/15/1, 25/15/2. 220// (21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5 min, 22 min) 230// (4/1, 5/2 min)	2.57		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
19.	Nahar Colony	230//, 246// (16, 17, 18/2, 24/3, 25 min), 24/1, 24/2, 26, 247// (11, 20, 21 min), 257// (3/1, 4, 5 min)	3.81		
20.	Ram Singh Colony Part-2	534//15 min, 535//11 min, 18 min, 19 min, 20 min, 21 min, 22, 23 min, 543//1 min, 2	5.66	Municipal Council Hansi	Hisar
21.	Chhotu Ram Nagar 1 Extn. Part-1.	7//14/1(P), 14/2(P), 15(P), 16/1(P), 17/1(P), 17/2(P)	1.39	Municipal Council Bahadurgarh	Jhajjar
22.	Chhotu Ram Nagar 2 Extn. Part- 1	13//11/3(P), 12/2(P), 12/2/2(P), 13(P),	0.66		
	Chhotu Ram Nagar 2 Extn. Part- 2	15(P), 16/1(P), 19/2(P), 20/(P) 15//9(P), 12(P), 13(P)	1.14		
	Chhotu Ram Nagar 2 Extn. Part- 3	60//4, 5, 6, 7, 8 (P), 9 (P), 13(P)	5.36		
23.	Subhash Nagar New Extn.	2672 (P), 2692(P), 2694 (P) 2695(P), 2696(P), 2697(P), 2698, 2699(P)	5.23		
24.	JE Colony	15(P), 16(P), 22(P)	3.85		
25.	Bank Colony II Extn. Part-1	972, 974(P), 970(P), 969	6.79		
	Bank Colony II Extn. Part-2	968, 963(P), 964, 965, 993	0.92		
26.	Shakti Nagar II Extn.	534, 574P	3.40		
27.	MamanViharExtn.	278(P) 279 (P)	0.76		
28.	Employees Colony (Gohana-Rohtak Road Bye Pass)	185//21 min, 186//21, 22, 23 min, 24 min, 25 min, 221//1, 2, 3, 5 min, 8 min, 9, 10, 11, 12, 19 min, 20 min, 222//1min	11.87	Municipal Council Jind	Jind
29.	Bharat Nagar-1	39//9min, 10 min, 11 min, 12 min	2.35		
30.	Bharat Nagar-2	37//22min, 23 min, 38//3 min	0.41		
31.	Dhaga Mill Colony	36//11 min, 13 min, 18 min, 19 min, 20 min, 37//15 min, 16 min	1.99		
32.	Joginder Nagar Extension-1	25//15/2, 26//10, 11, 165//11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 16 min, 17, 18 min, 19 min, 20 min, 24 min, 25 min	8.27		
33.	Joginder Nagar Extension-2	164//1 min, 2 min, 8 min, 9 min, 12 min, 13 min, 165//4 min, 5 min, 7 min	2.92		
34.	Shyoran Colony	193//21, 22, 23 min, 24 min, 25 min, 28 min, 194//25 min, 214//2min, 3 min, 4 min, 5 min	5.74		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
35.	Vijay Nagar Extension	112//11 min, 20 min, 21 min, 113//14 min, 15 min, 16, 17 min, 24 min, 25, 145//4 min, 5, 6 min, 7 min, 15 min, 16, 25 min, 146//1 min, 2 min, 3 min, 7 min, 8 min, 9, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 20 min, 21 min, 22 min, 23 min, 24 min, 25 min	20.68		
36.	New Krishna Colony	225//18 min, 19 min, 22 min, 23, 254//2 min, 3 min, 4, 5, 6, 7, 8, 9 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15, 16, 17 min, 255//1, 2, 3, 4 min, 7 min, 18, 19, 20, 21 min, 22, 23 min, 259//1 min, 2, 3 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min	30.04		
37.	Pritam Bagh	295//8 min, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 min, 296//11, 12, 19, 21, 22, 23, min, 305//1, 2, 3, 4, 5, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min	25.99	Municipal Council Narwana	
38.	Ram Nagar Ext.	227// 11 min, 12 min, 19, min, 20 min, 21 min, 22, 23, 24, 25, 255// 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 min, 13 min, 14 min, 15, 16, 17 min, 18 min, 23 min, 24 min, 25, 1649 min, 265// 3 min, 4 min, 7 min	25.60		
39.	Dharam Singh Colony Ext.	227// 3 min, 4, 5, 6, 7, 8 min, 9 min, 15, 16, 17	8.42		
40.	Bhagat Singh Colony Ext-1	306//21 min, 22 min, 332// 5 min, 6 min, 14 min, 15, 16min, 17 min, 24 min, 25 min, 333//1 min, 2 min, 11 min	6.68		
41.	Bhagat Singh Colony Ext-2	1681 min, 1682 min, 1689/1 min	6.80		
42.	Bhagat Singh Colony Ext-3	333//3min, 4 min, 5 min, 334//1	2.46		
43.	Bhagat Singh Colony Ext-4	333//6 min, 7 min, 8 min, 13 min, 14, 15, 16, 17, 25 min, 334//10 min, 11 min, 20 min, 21 min	10.27		
44.	Hari Nagar Ext.	304//21 min, 22, 23 min, 334//5 min, 6, 7 min, 12 min, 13min, 14, 15, 16 min, 17, 18, 19, 22 min, 23 min, 335//1, 2, 3 min, 4 min, 5 min, 7 min, 8, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 336//10 min, 344/2 min	18.59		
45.	Ghandhi Nagar-A	1823 min, 1824, 1825	3.98		
46.	Ghandhi Nagar-B	1815 min	2.65		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
47.	Colony behind Bus Stand, Part of SaheedBhagat Singh Colony	Patti Kaisth Seth:- 164//(17min, 18min, 19min) Patti Gadar:- 2//(16min, 25), 3//(19min, 20min, 21min, 22min, 23, 24) 7//(2min, 3, 4, 6min, 7min, 8min, 9min, 10, 11, 12min, 14min, 15min, 17min, 20min) 8//(5, 6, 15, 16min)	21.76	Municipal Council Kaithal	Kaithal
48.	Defence Colony, behind bus stand	Patti Gadar:- 6//(21min), 7//(16min, 21min, 22min, 23, 24, 25) 8//(23min, 24min, 25min) 17//(3min, 4, 5, 6, 7min, 8min, 15min) 18//(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11min, 12min, 13, 14, 15, 16min, 17min, 18min) 19//(1min, 10min, 11min, 20, 21min)	30.70		
49.	Colony both side Peoda road	Part-1, Patti Choudhary:- 27//(9Min,10min,11min,12min, 13min) Patti Gadar :- 86//(6min, 7min, 8min, 9min, 13min, 14, 15, 16, 17, 18min, 23min, 24, 25) 87//(9min, 10min, 11,19min, 20) 93//(9min, 10, 11, 12, 13min, 17min,18, 19min, 20min) 94//(4min, 5, 6, 7min, 14min, 15, 16min) Part-2, Patti Gadar :- 91//(21min) 92//(19min, 21min, 22, 23, 24, 25) 96//(5min, 6min, 7min, 13min, 14min, 15, 16min, 17, 18min, 23min, 24min, 25min) 97//(1, 2, 8, 9, 10, 11, 12min, 13min) 101//(5min)	46.60		
50.	Colony outside New Bye pass, Peoda Road, Kaithal	Part-1, Patti Gadar:- 96//(25min) 97//(19min, 20min, 21min, 22min) 100//(1,2,7min, 8min, 9min, 10min, 12min, 13min, 14min) 101//(5min, 6min) Part-2, Patti Gadar :- 104//(4min, 6min, 7min)	7.90		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
51.	Balaji Nagar and Hari Nagar Part-I, Kutubpur Road	Patti Choudhary :- Part –A 7//(14min, 17min, 18min, 19min, 20min, 21min, 22min, 23min) 12//(1min, 2min) Part –B 8//(24min, 25min) 11//(2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7, 8, 9Min, 12min, 13min, 14min, 15min)	10.52		
52.	Bala Ji Nagar and HariNagr Part-2, Kutubpur Road	Patti Choudhary : - 10//(15min, 16min, 18min, 23min, 24min, 25min) 19//(2min, 3min, 4, 5min, 6min, 7min, 8, 9min)	7.33		
53.	Karan Vihar Colony Jind Road, Kaithal	Patti Choudhary:- 26//(13min, 14min, 17min, 18min, 22min, 23min, 24min, 25min) 29//(3min, 4min, 5min, 8min, 9min)	5.16		
54.	Camboj Colony	Patti Kaisth Seth :- 98//(6min, 15min, 16min)	2.26		
55.	Dayanand Colony	7//24min, 25min, 17//2/2/1min, 2/2/2min, 3/3/1min, 3/3/2min, 3/3min, 4/1, 4/2, 4/3min, 4/4min, 5min, 8min, 9/2min, 26min	4.44	Municipal Council Thanesar	Kurukshetra
56.	Kang Colony Part-1	33//24min, 25min, 32// 21min 51//4/1min, 4/2min, 5min 52//1/2min	3.98		
57.	TP Scheme 7A Part 1	222/53min, 222/60min, 222/62min	2.80		
58.	TP Scheme 7A Part 2	22//11/1min, 26, 12min, 19min, 22min, 21/2min, 21/1min, 20/2min, 20/1min, 23//15min, 16/1min, 25/1min, 25/2min	5.80		
59.	Collage Colony	105//4min, 5min, 6, 7min, 14min, 15, 16min 104//1min, 10/1min, 10/2min, 11/1min, 11/2min, 20min	4.60		
60.	Shiv Colony	4//6min, 7/1min, 7/2min, 14/2min, 14/3min, 15, 16min, 17/1min 3//10min, 11min, 20min, 21/1min	4.00		
61.	Karan Colony	54//3min, 26/2, 55/2min, 3min, 4min, 7min, 8min, 9min,	5.96		
62.	Inder Colony	211//19min, 211/32min, 211/33min, 140min, 211/34min	3.00		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
63.	Gandhi Nagar Colony	50//15min, 17/1min, 24min, 51//5min, 6, 7 52//1min, 9min, 10, 28, 127min, 128/1min, 128/2min, 75min, 90min	21.48		
64.	Durga Nagar	15//2min, 3min, 7min, 8min, 9min, 12/1min, 12/2min, 13/1, 13/2, 14min, 15min, 16/1min, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1min, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 25/2/1min 27//1/2min, 2min, 3/1/2min, 3/1/1min, 3/2 min, 4min, 5/1min, 5/2/1min, 7/1min	16.00		
65.	Didar Nagar Extension	24// 14min, 16min, 17min, 18, 22min, 23, 24, 25 25//20min, 21/1min, 21/2min, 33//1min, 34//2min, 3min, 4min, 5min, 9min	9.80		
66.	Vivekanand Colony	22//8/1min, 11min, 12min, 13min, 18min, 19/1min, 19/2min, 20min, 21min, 26min, 23//16min, 17min, 22min, 23min, 24min, 25 33//2min, 4min, 5min, 7min, 8min 34//1min, 10min	10.66		
67.	Kishanpura Colony	38//19min, 20min, 21min, 22min	2.54		
68.	Ram Karan Das Extension	3288 min, 3279 min, 3292 min, 3280 min, 3277 min, 3272 min, 3312 min, 3217 min, 3504 min, 3270 min, 3269 min, 3268 min, 3267 min, 3302 min, 3596 min, 3252 min, 3261 min, 3264 min, 3266 min, 3275 min, 3254 min, 3265 min, 3577 min, 3578 min, 3579 min, 3531 min, 3591 min	14.3	Municipal Council Narnaul	Narnaul
69.	Mahatma Jyotiba Fulle Nagar	3939 min, 3940 min, 3941 min, 3942 min, 3943 min, 3944 min, 3963 min, 4100 min, 4101 min, 4102 min	14.3		
70.	Adrash Nagar Extension	2731 min, 2724 min, 2733 min, 2734 min, 2795 min, 2794 min, 2792 min, 2793 min, 2735 min	4.22		
71.	Agersain Colony Extension	2786 min, 2781 min, 2773 min, 2772 min, 2774 min, 2779 min, 2777 min, 2776 min, 2818 min, 2817 min	5.05		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
72.	Extension Om Colony Part-I	153// (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1 min) 154// (3, 5 min, 8, 14/1 min, 14/2 min, 15 min, 17, 24), 6 min, 7 min 167// (4, 6 min, 7, 14, 15, 16 min) 168// (11 min, 20 min)	28.1	Municipal Council Hodal	Palwal
73.	Extension Patwari Colony	155// (3 min, 4 min, 7, 9 min, 14 min, 17, 8 min, 23 min, 24 min)	5.6		
74.	Bijli Board Colony	167// (734 min, 735 min), 189// (20 min, 726 min), 190// (485, 486, 724 to 726, 729, 733, 737, 738, 744 to 747), 748 min, 753, 752	10.4		
75.	Extension Panduwan Colony	287// (17, 18 min, 24 min)	2.3		
76.	Meghpur	Revenue Estate Meghpur 6// 16 min, 23 min, 25 min, 7//21, 22, 23 min 10//1 min, 2, 3 min, 4 min, 7 min, 8, 9 min, 13 min	7.30	Municipal Council Palwal	
77.	Firozpur Part A and B	Revenue Firozpur 37//3, 7/1, 8, 9/1, 38//15, 16/1, 16/2, 40//19, 47//5/8, 132, 135/1, 136, 137, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Revenue Agwanpur 16//6/1, 6/2, 15, 15//10, 11/2, 19, 20/1, 20/2 40//10/2, 11, 12/1, 12/1/1, 19, 20, 45//1/1, 10/1, 20/1, 191, 192, 193, 195, 196, 196, 197, 198, 200, 201, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214/1, 215, 216, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239	Part A – 19.46 Part B – 11.56 Total – 31.02		
78.	Vijay Nagar	Jhanjanwas Hadbast Number 122 6//11, (18 min), 19, (20, 21 min), 22, 23 min 7//2 (3, 4, 6 min), 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, (24, 25 min), 8//16, (17, 18 min), 25, 9//5 10//1, 2, 3, (4, 5 min), 6, 7, 8, 14, 15 11// (2, 8, 9 min), 10, 11, 12, (13, 18 min), 19, 20, 22, (23 min)	120.09	Municipal Council Rewari	Rewari

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
		Pivera 1//24 min, 2// 21, 22 3//1, (9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 min), 21, 22, 23, 24, 25 4//(4, 5, 6, 7 min), 14, (15, 16 min), 17, 24, 25 8//5, 6, (7, 8, 14 min), 15, 16, 25 9//1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 min, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 min, 21, 23 min, 24, 25 10//1, 2, 3, (4, 7 min), 9, 10, 11 min, 12, 13 min, 16, 17, 18, 19, 20, 21, (22, 23, 24 min) 11//20 min 12//1 13//3, 4 min 14//1, 2, 3, 4, (5, 8, 9 min), 15//5 min			
79.	UttamVihar Phase-2A	148//(19, 20 min), 21, 22, 23 min 154//4 min, 5, 6, (7, 14 min), 15, 16, 17 min, 24, 25 173// 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22	21.68		
	UttamVihar Phase-2B	150// (4, 5, 6 min), 7, (8, 13 min), 14, (15, 16 min), 17, 18 min 151//10 min, 20 min	7.35		
80.	BudhVihar	67// (16, 25 min) 68// (19, 20 min), 21, (22 min) 76//1, 2, (3, 8, 9 min), 10, 11, (12, 19, 20 min) 77//15, 16, (25 min)	11.44		
81.	Shiv Nagar Phase-2B	111//(9, 12, 13, 16, 17 min), 18, (19, 22, 23, 24, 25 min) 112// (20 min) 117// (1 min), 2, (3, 9 min) 118// (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 min) 119// (5, 6, 7 min)	15.88		
82.	Vikas Nagar	160// (16 min) 170// (16 min, 17, 18, 19, 20, (21 min), 22, 23, (24, 25 min) 177// (2 min), 3, (4, 5, 7, 8 min)	11.45		
83.	Puran Nagar	155// (11 min), 20, 21 156// (15, 16, 17, 18, 23 min), 24, 25	24.67		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
		169// (7, 14, 15 min) 170// (3 min), 4, 5, 6, 7, (8, 9 min), 11, 12, 13, 14, 15 171//1, 10, 11			
84.	Shanti Nagar-A	104//(4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 min) 105// (1, 2, 8 min), 9, 10, 11, 12, 13, (14 min, 16 min, 18 min), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 106//21, 22 min, 23 min	26.88		
85.	Laxmi Nagar	29// 22, 23, 24, 25 min 30// 21 min 37// 10 min, 11, 20, 26 38//1, 2, 3, 4, (5, 6, 7, 8 min), 10, (11, 13, 14 min), 15, (16, 17, 18, 20, 25 min) 39//1 min, 2, 3, 4, (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 min) 40//4 min, 5, (6, 7, 15 min)	29.79		
86.	New Adarsh Nagar	186// 25	0.18		
87.	Thathera Colony-B	117// 16, 17, 18, 19, (20, 22 min), 23, 24	5.97		
	Thathera Colony-D	110// (16, 17 min) 111// (12 min), 19, (20 min)	3.1		
88.	Rao Chiranjilal Colony	10//16 11// (6, 7 min), 8, (9, 11 min), 12 (13, 14, 15 min) (16, 17 min), 18, 19, (20, 22 min), 23, 24 min 18//3, 8, 9 min 133// (4, 6, 7, 11, 21, 22, 23 min) 137// (5, 6 min) 138// 1, 2, 9, 10 min	17.64		
89.	Dev Nagar	32// 1 min, 2, 3 min, 8 min, 9, 10 min, 11 min	3.03		
90.	Yadav Nagar Phase-2A	56// (15, 16, 24, 25 min) 57// (11 min), 20, 21 87// 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 87// 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 88//4 min, 5, 6, (7, 14, 15, 16 min), 24, 25 3//(18, 22 min), 23, 24	23.92		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
	Yadav Nagar Phase-2B	89// (10, 11, 14, 17, 18, 19, 23, 24 min) 90// (6, 15 min)	5.22		
	Yadav Nagar Phase-2C	96// 25 131// 1 min, 2 min, 10 min 132// 5, 6	2.97		
91.	Kabir Nagar Colony	Urban No. 51, 188, 474/1, 474/2, 474/1/3, 474/1/5, 475/1, 475/3/1/4, 475/3/1/5, 475/3/1/6, 476/1, 477, 480	33.91	Municipal Council Mandi Dabawali	Sirsa
92.	Patel Nagar	Urban no. 1952, 1960, 1960/1, 1961/2, 1978 min, 1979, 1980, 1983 min, 1984/2, 1922, 1995, 1996, 1997 min, 1998 min, 1999, 2000, 2002/2, 2002/3, 2003/3, 2005/1, 2006/2, 2006/3	34.67		
93.	Baba Ambedkar Nagar	Urban No. 620, 621, 622, 623, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 690, 691, 692/3, 693, 694, 699/2, 699/3	36.18		
94.	Shiv Nagar Colony	60//16min, 23 min, 24 min, 25 min, 61//21 min, 75//1 min, 2 min, 9 min, 11 min, 12 min, 76//3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 13 min, 14 min, 15 min, 16 min, 17 min, 18 min, 23 min, 24 min, 25 min, 81//3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 82//1 min, 2 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 19 min	23.85		
95.	Vivakanand Colony (1)	Urban No. 2028, 2033/2, 2033/3, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2052, 2053/1, 2053/2	20.09		
	Vivakanand Colony (2)	2055/1, 2055/2, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2057, 2070, 2071, 2071/1, 2071/2/1, 2071/2/2, 2074, 2075	17.68		
96.	Peer Basti and Sarswati Colony	15//(1 min, 2 min, 3 min, 4, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11, 12, 13, 14, 15 min, 16 min, 17, 18, 19 min, 20 min, 22 min, 23 min, 24, 25 min) 16//5min, 6min, 7 min, 14 min, 15 min, 16 min)	19.5	Municipal Council Sirsa	
97.	SukhSagar	34//1, 2, 9, 10, 11, 12, 20, 21 min, 35//5, 6, 7, 8, 11 to 20, 22 to 25 min	17.97		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area in acres	Name of Councils	Name of District
1	2	3	4	5	6
98.	Adj. Friend Colony	94//6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 (Road Part), 23, 24, 25 min 95//7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 (Road Part), 18, 19, 20, 21, 22, 23 min	10.96		
99.	Adj. Shanti Nagar	57//(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 min) 7, 8, 9 58//5 min 54//25 min	9.79		
100.	Adj. Parmarth Colony	78//4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 min, 79//10, 11, 20 min	5.68		
	Nil			Municipal Council Gohana	Sonepat

* The Boundaries of the above area/ colony are indicated in the approved layout plan submitted by the concerned municipalities and duly recommended by the Divisional Commissioners concerned.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.